

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 384]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 16 सितम्बर 2015—भाद्र 25, शक 1937

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल—462011

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2015

क्र. एफ-65-01-2015-तीन-नपा-699.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद्, मकरोनिया बुजुर्ग, जिला सागर के माह सितम्बर, 2015 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति पार्षद निर्वाचित हुए हैं—

क्रमांक	नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	क्रमांक केवल पार्षद हेतु शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगरपालिका परिषद्, मकरोनिया बुजुर्ग, जिला सागर.	पार्षद	18	अठारह	श्रीमती रूकमणी गौड़	निर्दलीय

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(दीपक सक्सेना)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.